

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 547]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 नवम्बर 2014—अग्रहायण 6, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2014

क्र. एफ ए 3-76-2014-1-पांच (59).—यतः, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश  
वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) के अधीन कर के अपवंचन का निवारण करने या उसे रोकने की दृष्टि से ऐसा करना  
आवश्यक है;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को  
प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थान पर अस्थायी जांच चौकी स्थापित  
करता है और नाके का निर्माण करता है.

2. यह जांच चौकी 1 दिसम्बर, 2014 से छह मास की कालावधि के लिए स्थापित की जाती है :—

#### अनुसूची

अनुक्रमांक	जांच चौकी एवं नाके के स्थान का नाम तथा विवरण	जांच चौकी एवं नाके की अवस्थिति
(1)	(2)	(3)
1.	ग्राम जमालपुरा, जिला मंदसौर	मंदसौर-प्रतापगढ़ राज्य राजमार्ग क्रमांक 14 पर मंदसौर से प्रतापगढ़ की ओर 11-12 किलोमीटर के मध्य जहां ग्राम जमालपुरा में परिवहन विभाग की जांच चौकी स्थित है.

अमित राठौर, आयुक्त.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2014

क्र. एफ ए 3-76-2013-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-20-2014-1-पांच (59), दिनांक 27 नवम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 27th November 2014

No. F-A-3-76-2014-1-V (59).—WHEREAS, the Commissioner of Commercial Tax, Madhya Pradesh is satisfied that it is necessary so to do, with a view to prevent or check the evasion of tax under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002);

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the Commissioner, Commercial Tax, hereby sets up temporary check post and erects barrier at the place specified in the Scheduled below.

2. This Check Post is set up for a period of six months from 1st December, 2014 :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name and description of place of check post and barrier (2)	Location of check post and barrier (3)
1.	Village Jamalpura, District Mandsaur	On Mandsaur-Pratapgarh State Highway No. 14 between 11-12 K.m. from Mandsaur towards Pratapgarh where the check post of the Transport Department is situated at Village Jamalapura.

AMIT RATHORE, Commissioner.